

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मदें	मार्च 31 की स्थिति							
	ए. बी. बैंक #		ए. बी. एन. एम्स्रो बैंक		अबु-धाबी कमर्शियल बैंक		अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक #	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आय								
I अर्जित ब्याज	452	445	218514	303829	4664	6472	28914	
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	309	255	169132	218300	1422	1490	19753	
बी) निवेशों पर आय	45	62	44980	70789	1080	1423	6677	
सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	98	128	2435	2402	2162	1982	1232	
डी) अन्य	—	—	1967	12338	—	1577	1252	
II अन्य आय	485	444	86178	64382	1542	2925	37942	
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	359	371	56733	65174	282	277	25801	
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	—	—	-5976	2297	-194	—	-16	
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	—	—	—	—	—	—	—	
डी) ज़मीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	—	—	841	6	-1	-1	3839	
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	63	34	31279	-7175	225	305	4258	
एफ) विविध आय	63	39	3301	4080	1230	2344	4060	
कुल (I+II)	937	889	304692	368211	6206	9397	66856	
व्यय और प्रावधान								
III. व्यय किया गया ब्याज	53	43	103841	145980	3227	2667	16670	
ए) जमा राशियों पर ब्याज	39	28	37808	67013	2203	2158	14560	
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	14	15	42589	39128	1024	509	2078	
सी) अन्य	—	—	23444	39839	—	—	32	
IV. परिचालन व्यय	418	298	97021	130712	1890	2670	33939	
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	80	73	33445	55108	529	582	13682	
बी) किराया, कर और लाइटिंग	43	63	4510	8480	112	123	1857	
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	6	6	1822	2365	18	17	752	
डी) विज्ञापन और प्रचार	7	6	4438	2748	7	4	4114	
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	14	10	4844	5546	62	37	1849	
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	14	2	—	—	—	—	—	
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	3	1	30	30	4	4	183	
एच) विधि प्रभार	5	2	248	419	4	5	40	
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	26	23	3858	2023	47	40	2450	
जे) मरम्मत व रखरखाव	10	12	3230	4660	67	82	1039	
के) बीमा	3	2	1355	692	54	54	186	
एल) अन्य व्यय	207	98	39241	48641	986	1722	7787	
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	230	260	65295	63452	899	1166	11073	
कुल व्यय @	471	341	200862	276692	5117	5337	50609	
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	236	288	38535	28067	190	2894	5174	
कुल (III+IV+V+VI)	937	889	304692	368211	6206	9397	66856	

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मदें	मार्च 31 की स्थिति							
	एन्टवर्प डायमंड बैंक		बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया		बैंक ऑफ अमेरिका		बैंक ऑफ बहरीन एण्ड कुवैत	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
आय								
I अर्जित ब्याज	4149	4059	503	217	43011	51369	2987	3504
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2835	2632	87	7	21806	24792	1695	2158
बी) निवेशों पर आय	1013	1287	123	69	18541	21096	748	866
सी) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	233	87	293	141	255	1715	412	433
डी) अन्य	68	53	—	—	2409	3766	132	47
II अन्य आय	718	768	392	1141	23277	34798	461	868
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	565	556	2	—	4625	5950	201	229
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	—	—	—	-1	-1220	995	9	59
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	—	—	-8	-2	-1145	-753	—	—
डी) ज़मीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	1	—	—	1161	813	10	-1	302
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	71	131	-38	-25	16613	23788	112	148
एफ) विविध आय	81	81	436	8	3591	4808	140	130
कुल (I+II)	4867	4827	895	1358	66288	86167	3448	4372
व्यय और प्रावधान								
III. व्यय किया गया ब्याज	2455	2293	141	16	16906	16315	1729	1878
ए) जमाराशियों पर ब्याज	54	62	51	6	5552	9059	1518	1709
बी) भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1908	1788	90	10	11354	7256	118	51
सी) अन्य	493	443	—	—	—	—	93	118
IV. परिचालन व्यय	580	624	261	455	13978	16744	1072	1218
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	267	292	61	98	7782	9029	433	496
बी) किराया, कर और लाइटींग	48	49	13	43	1076	1331	329	378
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	5	6	10	2	148	154	15	17
डी) विज्ञापन और प्रचार	2	2	1	4	—	—	2	2
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	58	36	61	46	817	740	56	42
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	—	—	—	—	—	—	—	—
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	6	7	3	3	14	19	6	13
एच) विधि प्रभार	—	1	29	64	25	48	5	8
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	62	49	26	28	334	381	36	44
जे) मरम्मत व रखरखाव	23	28	18	16	297	345	53	52
के) बीमा	7	5	4	3	239	321	38	42
एल) अन्य व्यय	102	149	35	148	3246	4376	99	124
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	775	838	(10)	188	15850	22587	1459	(647)
कुल व्यय @	3035	2917	402	471	30884	33059	2801	3096
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	1057	1072	503	699	19554	30521	(812)	1923
कुल (III+IV+V+VI)	4867	4827	895	1358	66288	86167	3448	4372

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मर्दें	मार्च 31 की स्थिति							
	बैंक ऑफ सिलोन		बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया		बैंक ऑफ टोकियो मित्सुबिशी यूएफजे		बारक्लेस बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
आय								
I अर्जित ब्याज	1025	1122	25723	35441	12741	21354	13756	62384
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	374	526	18346	25904	8994	16775	2278	43221
बी) निवेशों पर आय	203	214	6365	9306	2913	3754	9167	17108
सी) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	431	373	242	163	471	376	2183	2043
डी) अन्य	17	9	770	68	363	449	128	12
II अन्य आय	344	357	8176	11365	4917	4265	21719	56752
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	243	219	831	1045	960	1414	6555	20114
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	-	-	-	309	5	-	-1156	3251
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	-59	-	-	-	-	-	-24	-
डी) जमीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-26	-1	-17	-	-	140
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	104	76	5284	6082	2196	2588	-1479	18357
एफ) विविध आय	56	62	2087	3930	1773	263	17823	14890
कुल (I+II)	1369	1479	33899	46806	17658	25619	35475	119136
व्यय और प्रावधान								
III. व्यय किया गया ब्याज	400	312	17916	25789	4766	7704	7095	32342
ए) जमा राशियों पर ब्याज	389	292	12842	18927	2612	3977	2912	19852
बी) भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	4	20	4951	6449	680	1640	2538	8122
सी) अन्य	7	-	123	413	1474	2087	1645	4368
IV. प रिचालन व्यय	269	269	3990	4026	4173	3032	12814	69201
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	92	85	1547	1690	2199	1576	8313	25185
बी) किराया, कर और लाइटींग	36	37	474	491	350	365	1389	6303
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	5	3	62	65	48	51	40	943
डी) विज्ञापन और प्रचार	2	4	66	9	-	2	509	3417
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	5	14	195	192	213	258	443	1779
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	-	-	-	-	2	2	-	-
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	1	2	20	22	7	7	20	29
एच) विधि प्रभार	17	19	42	52	67	147	17	51
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	50	45	147	175	71	70	334	1515
जे) मरम्मत व रखरखाव	6	6	181	207	148	153	262	271
के) बीमा	1	1	144	142	100	102	37	165
एल) अन्य व्यय	54	53	1112	981	968	299	1450	29543
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	496	521	4409	6863	3654	6473	6457	16976
कुल व्यय @	669	581	21906	29815	8939	10736	19909	101543
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	204	377	7584	10128	5065	8410	9109	617
कुल (III+IV+V+VI)	1369	1479	33899	46806	17658	25619	35475	119136

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मदें	मार्च 31 की स्थिति							
	बीएनपी परिवार		कैल्योन बैंक		चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक		सिटि बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
आय								
I अर्जित ब्याज	30304	45948	16810	27610	1176	1420	438364	596399
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	16707	25208	9941	13278	926	1131	291278	412092
बी) निवेशों पर आय	12022	20003	5163	13515	208	255	103159	139247
सी) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1553	692	1706	815	42	34	42939	45033
डी) अन्य	22	45	-	2	-	-	988	27
II अन्य आय	13699	25333	15169	23002	130	161	134583	244612
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	6073	8315	1489	1684	58	90	61400	96157
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	-3537	-185	1521	1858	-	-	-13215	6656
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) जमीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	2	-1	1	5	-	-1	476	6652
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	10962	17119	12023	19376	24	28	85068	132513
एफ) विविध आय	199	85	135	79	48	44	854	2634
कुल (I+II)	44003	71281	31979	50612	1306	1581	572947	841011
व्यय और प्रावधान								
III. व्यय किया गया ब्याज	17246	25376	9533	14269	696	831	169637	231142
ए) जमाराशियों पर ब्याज	8840	12106	1735	3539	302	434	130971	191476
बी) भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	6465	10624	6454	9533	391	397	36562	38223
सी) अन्य	1941	2646	1344	1197	3	-	2104	1443
IV. परिचालन व्यय	12933	17556	7908	10782	415	487	185265	217938
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	6591	9519	4725	6862	144	145	56178	65167
बी) किराया, कर और लाइटींग	708	1329	332	609	113	140	8640	12016
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	141	175	20	35	3	4	3265	4337
डी) विज्ञापन और प्रचार	173	154	184	256	1	1	25194	25840
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	578	699	269	303	14	17	11233	10354
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	10	26	4	4	5	5	53	64
एच) विधि प्रभार	7	7	94	59	16	29	1021	810
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	330	380	104	124	7	10	11079	11923
जे) मरम्मत व रखरखाव	750	817	163	241	4	13	7431	6614
के) बीमा	182	370	57	96	9	10	3129	4286
एल) अन्य व्यय	3463	4080	1956	2193	99	113	58042	76527
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	7464	15278	5560	12894	129	(70)	128045	211505
कुल व्यय @	30179	42932	17441	25051	1111	1318	354902	449080
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	6360	13071	8978	12667	66	333	90000	180426
कुल (III+IV+V+VI)	44003	71281	31979	50612	1306	1581	572947	841011

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मर्दें	मार्च 31 की स्थिति							
	डी.बी.एस. बैंक		डूश बैंक		हाँगकॉंग एण्ड शांघहाय बैंकिंग कॉरपोरेशन		जेपी मोरगन चेस बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
आय								
I अर्जित ब्याज	38125	63410	97172	144538	350792	497922	27928	45135
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	9434	16505	35594	71562	211664	325376	2545	10371
बी) निवेशों पर आय	11458	25895	28161	55874	120543	148364	21169	32663
सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियाँ और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	17233	21010	33402	16181	16726	23062	2904	1836
डी) अन्य	—	—	15	921	1859	1120	1310	265
II अन्य आय	8608	-3345	65366	101633	121234	211668	17189	37884
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	3443	3643	26163	38802	75900	99689	12801	21670
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	-894	-1744	-213	12552	-27378	-5548	-3228	4455
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	—	—	—	—	—	—	-782	-547
डी) ज़मीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	3	1	324	-28	2794	-193	9	—
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	5880	-5569	31193	39496	43750	82108	8301	11975
एफ) विविध आय	176	324	7899	10811	26168	35612	88	331
कुल (I+II)	46733	60065	162538	246171	472026	709590	45117	83019
व्यय और प्रावधान								
III. व्यय किया गया ब्याज	24247	39341	46707	53650	121339	201587	12736	20352
ए) जमाराशियों पर ब्याज	10148	12189	10655	22452	105406	173935	4996	10118
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	14099	27152	35986	30414	12817	24810	2082	3404
सी) अन्य	—	—	66	784	3116	2842	5658	6830
IV. परिचालन व्यय	7413	8817	74440	105920	158448	214517	7057	12802
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	4596	5545	38102	49873	61693	89079	3949	7793
बी) किराया, कर और लाइटींग	650	715	2793	4909	6727	10412	351	570
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	21	31	980	1300	2491	2556	20	43
डी) विज्ञापन और प्रचार	17	99	2603	1347	11842	10489	10	10
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	489	575	2914	2908	6513	6389	144	186
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	—	—	—	—	—	—	—	—
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	4	4	22	46	22	22	19	23
एच) विधि प्रभार	5	31	263	531	438	415	138	94
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	267	88	3292	5172	6660	8654	225	337
जे) मरम्मत व रखरखाव	57	172	2430	3043	4162	3832	178	393
के) बीमा	79	184	1159	1623	3070	4660	188	209
एल) अन्य व्यय	1228	1373	19882	35168	54830	78009	1835	3144
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	7663	5405	19569	47991	107678	174256	14646	24956
कुल व्यय @	31660	48158	121147	159570	279787	416104	19793	33154
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	7410	6502	21822	38610	84561	119230	10678	24909
कुल (III+IV+V+VI)	46733	60065	162538	246171	472026	709590	45117	83019

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मदें	मार्च 31 की स्थिति							
	कुंग थाय बैंक		माशरेक बैंक		मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक		ओमान इंटरनेशनल बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
आय								
I अर्जित ब्याज	594	776	766	793	4445	7477	1634	1462
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	97	88	230	142	3744	6050	164	18
बी) निवेशों पर आय	141	155	209	204	639	1358	707	644
सी) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	356	533	223	277	16	36	762	800
डी) अन्य	-	-	104	170	46	33	1	-
II अन्य आय	40	85	790	967	1347	1960	96	67
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	29	37	570	823	735	1166	33	22
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	-5	-	-	-	-	-	-24	-
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) जमीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-	2	-	-18	1	-	-
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	15	48	116	110	630	793	48	40
एफ) विविध आय	1	-	102	34	-	-	39	5
कुल (I+II)	634	861	1556	1760	5792	9437	1730	1529
व्यय और प्रावधान								
III. व्यय किया गया ब्याज	107	240	68	25	1517	3377	1279	1209
ए) जमाराशियों पर ब्याज	107	240	31	21	579	962	1101	1100
बी) भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	-	-	1	1	935	2168	178	109
सी) अन्य	-	-	36	3	3	247	-	-
IV. परिचालन व्यय	265	257	568	571	1715	2560	580	588
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	66	55	227	251	685	971	170	167
बी) किराया, कर और लाइटींग	82	94	106	98	372	724	45	50
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	2	2	7	8	16	16	7	5
डी) विज्ञापन और प्रचार	1	1	2	6	1	1	2	7
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	33	36	31	38	158	171	125	126
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	-	-	-	-	-	-	2	-
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	2	2	3	3	5	13	2	3
एच) विधि प्रभार	-	-	9	8	33	24	36	39
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	5	5	33	34	31	34	15	19
जे) मरम्मत व रखरखाव	15	13	29	33	106	184	29	33
के) बीमा	1	1	2	5	20	25	24	21
एल) अन्य व्यय	58	48	119	87	288	397	123	118
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	119	165	(114)	254	1350	1448	116	(1046)
कुल व्यय @	372	497	636	596	3232	5937	1859	1797
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	143	199	1034	910	1210	2052	(245)	778
कुल (III+IV+V+VI)	634	861	1556	1760	5792	9437	1730	1529

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मदें	मार्च 31 की स्थिति							
	शिनहॉन बैंक		सोसायटी जनरल		सोनाली बैंक		स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)
आय								
I अर्जित ब्याज	2523	4837	16906	22100	137	137	404618	487805
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	808	1653	2860	3921	36	53	259541	345699
बी) निवेशों पर आय	474	739	11613	12338	44	53	124933	123571
सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1238	2440	2433	5841	24	4	10508	8700
डी) अन्य	3	5	-	-	33	27	9636	9835
II अन्य आय	287	557	3959	4237	354	372	134733	225172
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	175	159	1509	4098	296	288	107057	163637
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	-	-	-2086	-314	-	-	-34152	-10199
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) ज़मीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	17	-	1	362	184
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	92	339	666	1340	37	55	25347	36315
एफ) विविध आय	20	59	3870	(904)	21	28	36119	35235
कुल (I+II)	2810	5394	20865	26337	491	509	539351	712977
व्यय और प्रावधान								
III. व्यय किया गया ब्याज	614	1475	11690	16544	71	61	165188	212995
ए) जमाराशियों पर ब्याज	354	1394	5229	8302	41	36	112196	164666
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	69	70	6460	8241	-	-	48226	43181
सी) अन्य	191	11	1	1	30	25	4766	5148
IV. परिचालन व्यय	885	1330	4858	6080	304	330	140367	205060
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	276	356	2886	3324	178	189	59034	79360
बी) किराया, कर और लाइटींग	202	456	376	559	56	76	4465	8035
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	11	11	39	39	4	4	3522	4203
डी) विज्ञापन और प्रचार	6	5	24	1	2	2	21570	26338
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	48	72	471	527	4	4	2876	3517
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	2	2	2	4	3	3	33	40
एच) विधि प्रभार	1	1	17	21	1	1	3763	4526
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	15	61	202	217	27	19	4817	6407
जे) मरम्मत व रखरखाव	31	33	66	58	1	1	7752	9733
के) बीमा	17	41	88	124	3	2	3104	3950
एल) अन्य व्यय	276	292	687	1206	25	29	29431	58951
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	715	1272	2106	(315)	55	58	97363	124302
कुल व्यय @	1499	2805	16548	22624	375	391	305555	418055
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	596	1317	2211	4028	61	60	136433	170620
कुल (III+IV+V+VI)	2810	5394	20865	26337	491	509	539351	712977

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।

टेबल बी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय – 2006-07 और 2007-08 (जारी)
विदेशी बैंक

(राशि लाख रुपये में)

मर्दे	मार्च 31 की स्थिति	
	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस	
	2007	2008
	(57)	(58)
आय		
I अर्जित ब्याज	3647	3705
ए) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	1885	1943
बी) निवेशों पर आय	856	851
सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	906	911
डी) अन्य	-	-
II अन्य आय	635	571
ए) कमीशन, विनिमय और दलाली	41	50
बी) निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/ (हानी)	55	264
सी) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-
डी) ज़मीन, बिल्डिंग व अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/हानि	-	-
ई) विनिमय लेनदेन पर शुद्ध लाभ/(हानी)	172	79
एफ) विविध आय	367	178
कुल (I+II)	4282	4276
व्यय और प्रावधान		
III. व्यय किया गया ब्याज	2473	2574
ए) जमाराशियों पर ब्याज	1438	1834
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1035	740
सी) अन्य	-	-
IV. परिचालन व्यय	644	650
ए) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	189	194
बी) किराया, कर और लाइटिंग	24	28
सी) मुद्रण (प्रिंटिंग) और लेखनसामग्री	6	7
डी) विज्ञापन और प्रचार	1	1
ई) बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	135	122
एफ) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	-	-
जी) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	3	3
एच) विधि प्रभार	13	5
आय) डाक व्यय, तार, टेलीफोन, इत्यादी	76	31
जे) मरम्मत व रखरखाव	38	33
के) बीमा	28	30
एल) अन्य व्यय	131	196
V. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	379	541
कुल व्यय @	3117	3224
VI. वर्ष के दौरान लाभ (हानि)	786	511
कुल (III+IV+V+VI)	4282	4276

टिप्पणी: @ इसमें 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं हैं।

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे।